




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 139]
No. 139]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 2, 1979/ वैशाख 12, 1901
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 2, 1979/VAISAKHA 12. 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रख जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस्तार मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधीनस्थानाई

नई दिल्ली, 2 मई, 1979
सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 283 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान है जान पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, ऐसे ठीकाण आधानों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए—

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से, और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से ;

छूट देती है :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में और राशि का बंधपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह प्रत्येक आधानों को, आयात करने की तारीख से छे मास के भीतर पुनः निर्यात कर देगा और सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को समाधानप्रद रूप में उसका दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तथा आयातकर्ता द्वारा ऐसा न किए जाने की स्थिति में उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय करेगा :

परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट मामले में, छे मास की पूर्विकत अवधि पर्यन्त हतुक दर्शित करने पर, संबंध सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा, ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, जैसी वह ठीक समझे, बढ़ाई जा सकेगी ।

[सं. 97-सीमाशुल्क/फा. सं. 463/177/78-सीमाशुल्क-3]

Ministry of Finance
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS
New Delhi, the 2nd May, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 283(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts containers which are of durable nature when imported into India from—

(a) the whole of duty of customs leviable thereon under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); and

(b) the whole of the additional duty of customs leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.

Provided that the importer, by execution of a bond in each form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to re-export the containers in question within two months from the date of their importation and to furnish documentary evidence thereof to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs and to pay the duty leviable thereon in the event of the importers failure to do so :

Provided further that in any particular case, the aforesaid period of two months, may, in sufficient cause being shown, be extended by the Assistant Collector of Customs concerned for such further period, as he may deem fit.

[No. 97-Customs/F. No. 463/177/78-Cus.V]

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 284 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं. 73.24 के अन्तर्गत आने वाले खाली गैस सिलिन्डरों को, जत्र गैस भरने के लिए उनका भारत में आयात किया जाए—

(क) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से, और

(ख) उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में और राशि का बंधपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह गैस सिलिन्डरों को, चाहे वे गैस से भरे हुए हों या नहीं, आयात करने की तारीख से तीन मास के भीतर पुनर्निर्यात कर देगा और सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर को समाधान-प्रद रूप में उसका दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तथा आयातकर्ता द्वारा ऐसा न किए जाने की स्थिति में उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय करेगा :

परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट मामले में, तीन मास की पूर्वोक्त अवधि, पर्याप्त हंतुक्त वीरित करने पर, संबंध सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा, ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, जैसी वह ठीक समझे बढ़ाई जा सकती ।

[सं. 98-सीमा-शुल्क/का. सं. 463/177/78-सीमा-शुल्क-5]

CUSTOMS

G.S.R. 284 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts empty gas cylinders falling under Heading No. 73.24 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for being filled with gas, from—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); and

(b) the whole of the additional duty of customs leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act;

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to re-export the gas cylinders in question, whether filled with gas or not, within three months from the date of their importation and to furnish documentary evidence thereof to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs and to pay the duty leviable thereon in the event of the importer's failure to do so ;

Provided further that in any particular case, the aforesaid period of three months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Assistant Collector of Customs concerned for such further period as he may deem fit.

[No. 98-Customs/F. No. 463/177/78-Cus. V]

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 285(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1979 के खंड 31 के, जिस खंड को, अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के फलस्वरूप विधि का बल प्राप्त है, उपखंड (4) के साथ पीठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 53-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं. 218 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“219 सं. 97—सीमा-शुल्क, तारीख 2 मई, 1979
220 सं. 98—सीमा-शुल्क, तारीख 2 मई, 1979” ।

[सं. 99-सीमा-शुल्क/का. सं. 463/177/78-सी. शु. 5]

एस. बसु., अवर सचिव

CUSTOMS

G.S.R. 285(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 53-Customs, dated the 1st March, 1979 namely :—

In the Schedule annexed to the said notification after Serial No. 218 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely :—

“219 No. 97—Customs, dated the 2nd May, 1979
220 No. 98—Customs, dated the 2nd May, 1979”.

[No. 99-Customs/F. No. 463/177/78-Cus. V]

S. BASU, Under Secy.